

शामली दर्पण



VOLUME 38

**01/JULY/2019 TO
31/JULY/2019**

ई-पत्रिका



WELCOME TO SHAMLI

पार्क में महापुरुषों की मूर्तियाँ



स्वच्छ सर्वेक्षण 2019



Rath Yatra (रथ यात्रा)

04/07/2019

रथ-यात्रा भारत के पवित्र त्यौहारों में से एक है । यह हिन्दुओं का त्यौहार है । यह उत्सव आषाढ मास में मनाया जाता है, जो प्रायः रन के महीने में पड़ता है ।

यह उत्सव भगवान् जगन्नाथ के राम्मान में मनाया जाता है । जगन्नाथ को विष्णु के दस अवतारों में से एक अवतार माना जाता है ।

इस उत्सव में भगवान् जगन्नाथ को मूर्ति को लकड़ी के बने एक भव्य और सुसज्जित रथ में रखते हैं । उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहिन सुभद्रा की मूर्तियाँ भी होती हैं । रथ बड़े समारोहपूर्वक नगर के प्रमुख बाजारों से गुजरता है । रथ में 16 पहिये दिखाये जाते हैं । यद्यपि रथ को खींचने वाले लकड़ी के घोड़े भी रथ में लगे होते हैं, लेकिन श्रद्धालुजन रस्सी के सहारे इसे खींचना बड़ा पुण्य का काम मानते हैं ।

रथ एक सप्ताह तक गंगा के किनारे (या किसी अन्य नदी के किनारे) खड़ा रहता है । इस बीच श्रद्धालु उनकी पूजा-अर्चना करते रहते हैं और तरह-तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं । एक सप्ताह के बाद पुनर्यात्रा शुरू होती है और उसी प्रकार समारोहपूर्वक रथ को मंदिर में लाकर मूर्तियों को वहाँ पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है ।



संचारी रोग अभियान के तहत हुई साफ-सफाई

मेजवां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रविवार को फूलपुर ब्लॉक परिसर, कैफी आजमों का पैतृक गांव मेजवां और सीएचसी फूलपुर परिसर में संचारी रोग के तहत अभियान चलाकर साफ-सफाई की गई। इस दौरान स्वच्छता के लिए ब्लॉक स्तर के सफाईकर्मियों को लगाया गया। अभियान के दौरान सीएचसी अधीक्षक डा. रामआशीष यादव और डा. मोहम्मद अजीम ने संचारी रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डेंगू से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अपने गांव में जलजमाव न होने दें। सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। मच्छर मारने वाली दवाओं की मशीन से पूरे गांव में छिड़काव करवाएं। बीडीओ राजेश यादव ने कहा कि सभी लोग शौचालय का प्रयोग करें। खुले में शौच कदापि न करें। घरों के आसपास गन्दगी न फैलाएं। यह जागरूकता अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस मौके पर डाक्टर अरबी वर्मा, डाक्टर अरविंद रावत, डाक्टर शशिकांत, रामआसरे यादव, विष्णु, गोविंद यादव थे। व्यूरे



सफाई में सुधार के लिए 50 कंटेनर खरीदेगी पालिका

अमर उजाला व्यूरो

आजमगढ़। नगर पालिका आजमगढ़ की ओर से 14वें वित्त आयोग से मिली धनराशि से 2 करोड़ से ज्यादा रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें एक पोकलेन, कुड़ा ढोने के लिए दो बंद गाड़ी, 25 मीडियम कंटेनर, 25 बड़े कंटेनर की खरीद के साथ निर्माण संबंधित कुछ प्रस्तावों को शामिल किया गया है। इसे शायी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

**दो करोड़ से
ज्यादा से
होगी सफाई**

लोकसभा चुनाव से पहले शासन से जारी 14वें वित्त की धनराशि से पालिका की ओर से अब फिर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। चुनाव से पहले भी पालिका की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी ने इसमें कई कमियां बताते हुए नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। दो करोड़ से ज्यादा के नये प्रस्ताव में पालिका की ओर से एक पोकलेन खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है, जो डंपिंग ग्राउंड पर कुड़े को व्यवस्थित करने का कार्य करेगी। इसके अलावा शहर के निकला कुड़ा डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए दो बंद बड़े वाहन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा गया है। पालिका पहले ही मीडियम स्तर के 25 कंटेनर मिल चुके हैं, जो पालिका में शोपिंग बने हुए हैं। अभी 25 और कंटेनर खरीदा जाएगा। इसके बाद इन्हें शहर में कई स्थानों पर रखकर जाया जाएगा। 25 बड़े साइज के भी कंटेनर खरीदे जाएंगे। इसे ऐसे स्थान पर रखा जाएगा, जहां ज्यादा कुड़ा एकत्र होता है। इसके साथ ही कुछ निर्माण कार्यों को भी शामिल किया जाएगा। पालिका की ओर से इस प्रस्ताव को शायी निकाय की बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद खरीद की जाएगी।



शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 14वें वित्त से पालिका की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें पोकलेन, कुड़ा ढोने के लिए दो वाहन, कंटेनर खरीद के साथ ही निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। मंजूरी मिलने के बाद खरीद होगी।

प्रणीत अविवास्तव, पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि





स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

बापू का नारा, स्वच्छ भारत हैं बनाना \

भूमण्डल में गूंजे गान \

मेरा भारत देश महान \ \

फिर गूजेंगा का बापू का गान \

स्वच्छ रहे भारत का हर ग्राम \ \

कूड़ा करकट का हैं अम्बार \

सबको मिलकर करना हैं साफ \ \

अपने कर्मों को सुधारे \

नदियों को पवित्र बनायें \ \

स्वच्छता उन्नति का आधार हैं \

लम्बे जीवन का सार हैं \ \

स्वच्छता आकर्षण का आधार हैं \

स्वच्छता मोक्ष का द्वार भी हैं \ \

बच्चे बूढ़े, और जवान हैं ,

सहयोग सेतु में बंध एक साथ \

संकल्प करे फिर एक बार \

स्वच्छ रखेगा भारत को हर हाथ \ \

अच्छे दिनों को लाना हैं \

भारत का मान बढ़ाना हैं \ \

स्वच्छ भारत मिशन शामली

श्री सुरेंद्र सिंह

श्रीमती अंजना बंसल

(अधिकांश अधिकारी)

(अध्यक्ष)

A 3D white figure is shown from the back, holding a large, futuristic smartphone. The phone's screen displays a web browser interface with various elements like a search bar, navigation buttons, and a list of items. The figure is standing on a white surface against a white background.

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756